

CLASS III HINDI II FOR II UNIT

पाठ- 10 अमृतवाणी

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

- (क) सबसे पहले किस को नमन करना चाहिए?
उ० सबसे पहले गुरु को नमन करना चाहिए।
(ख) मीठी वाणी क्या प्रभाव डालती है ?
उ० मीठी वाणी लोगों को शीतलता प्रदान करती है।
(ग) खजूर का पेड़ कैसा होता है ?
उ० खजूर का पेड़ बड़ा होता है।
(घ) अमृतवाणी में दोहे के रचयिता कौन हैं ?
उ० अमृतवाणी में दोहे के रचयिता कबीर दास जी हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

- (क) गुरु एवं ईश्वर दोनों के साथ खड़े होने पर पहले गुरु के चरण क्यों छूने चाहिए ?
उ० गुरु एवं ईश्वर दोनों के साथ खड़े होने पर पहले गुरु के चरण छूने चाहिए क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का ज्ञान गुरु ही दे सकता है।
(ख) ईश्वर किस के हृदय में वास करता है ?
उ० जो हमेशा सत्य बोलता है, ईश्वर उसके हृदय में वास करता है।
(ग) खजूर के पेड़ जैसा बनने के लिए क्यों मना किया गया है ?
उ० खजूर के पेड़ जैसा बनने के लिए मना किया है क्योंकि यह बड़ा अवश्य होता है लेकिन यह छाया नहीं देता।
(घ) हमें कैसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए ?
उ० हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए।

पाठ-11 हवा महल

- (क) बीरबल अकबर के दरबार में क्या थे ?
उ० बीरबल अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे।
(ख) अकबर कैसा महल बनवाना चाहते थे ?
उ० अकबर हवामहल बनवाना चाहते थे।
(ग) बीरबल ने बादशाह की बात का क्या उत्तर दिया ?
उ० बीरबल ने कहा-"जरूर जहाँपनाह! हवा महल बन सकता है। आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए।"
(घ) बीरबल अकबर को कहाँ लेकर आए ?
उ० बीरबल अकबर को शहर के बाहर खुली जगह में लेकर आए।
(ङ) बीरबल ने कौन-सा पक्षी मँगवाया ?
उ० बीरबल ने पालतू तोते मँगवाए।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

- (क) बीरबल कौन थे और वह क्यों प्रसिद्ध थे ?
उ० बीरबल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। वह अपनी होशियारी और हाज़िर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे।
(ख) तोते क्या कह रहे थे ?
उ० बीरबल के सिखाए तोते चिल्ला रहे थे,"वहाँ खोदो, मिट्टी हटाओ, पत्थर रखो, ईंट लाओ, गारा तैयार करो।"
(ग) बादशाह ने बीरबल को क्या उपहार दिया और क्यों ?
उ० बीरबल की होशियारी देखकर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को हँसकर गले लगा लिया और उपहार स्वरूप उन्हें एक नौलखा हार दिया।

पाठ-12 निराला भारत देश

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

- (क) तोता क्या करता है ?

- उ० तोता कथा बाँचता है।
 (ख) हम सब किसकी संतान हैं ?
 उ० हम सब ईश्वर की संतान हैं।
 (ग) भारत में कितनी ऋतुएँ होती हैं ?
 उ० भारत में कुल छह ऋतुएँ होती हैं।
 (घ) मोर कब नाचते हैं ?
 उ० मोर बसंत ऋतु में नाचते हैं।
 (ङ) कविता के रचयिता का क्या नाम है ?
 उ० कविता के रचयिता 'सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी' हैं।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

- (क) भारत में कौन-कौन से पर्व मनाए जाते हैं ?
 उ० भारत में विभिन्न पर्व मनाए जाते हैं; जैसे-होली, राखी और दीवाली आदि।
 (ख) किस ऋतु की छटा निराली होती है ?
 उ० बसंत ऋतु की छटा निराली होती है।
 (ग) "ईश्वर एक हम उसी के बंदे" से क्या तात्पर्य है ?
 उ० ईश्वर एक हम उसी के बंदे से तात्पर्य है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं।
 (घ) पवित्र पुस्तकों के नाम लिखिए।
 उ० पवित्र पुस्तकों के नाम हैं- बाइबिल, कुरान और गीता।

पाठ-13 सबसे स्वादिष्ट भोजन

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए-

- (क) सोम प्रकाश पढ़ने के लिए कहाँ जाता था ?
 उ० सोम प्रकाश पढ़ने के लिए पड़ोस के कस्बे में जाता था।
 (ख) सोम प्रकाश की मित्रता किससे हो गई ?
 उ० सोम प्रकाश की मित्रता सेठ के लड़के हरिहरण से हो गई थी।
 (ग) सोम प्रकाश शहर में क्या करने गया था ?
 उ० सोम प्रकाश शहर में अपनी फ़सल बेचने के लिए गया था।
 (घ) हरिहरण ने भोजन में क्या खाया ?
 उ० हरिहरण ने एक प्याली मूँग की दाल का पानी और बिना घी चुपड़ी दो रोटी खाई।

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए-

- (क) किसान ने किस भोजन को स्वादिष्ट बताया ?
 उ० किसान ने परिश्रम के भोजन को सबसे स्वादिष्ट बताया।
 (ख) सोम प्रकाश हरिहरण के पास क्यों ठहर गया ?
 उ० मौसम खराब होने और हरिहरण के रोकने की वज़ह से सोमप्रकाश वहाँ ठहर गया।
 (ग) दोनों मित्रों ने साथ मिलकर भोजन क्यों नहीं किया ?
 उ० दोनों मित्रों ने साथ मिलकर भोजन इसलिए नहीं किया क्योंकि हरिहरण को डॉक्टर ने जो खाने के लिए कहा था, उसे सोम प्रकाश को नहीं खिलाया जा सकता था।
 (घ) हरिहरण क्यों अस्वस्थ रहता था ?
 उ० शारीरिक श्रम न करने के कारण हरिहरण अस्वस्थ रहता था। उसे कुछ भी पता नहीं था और जोड़ों में पीड़ा रहती थी।